



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 चैत्र 1935 (श0)  
(सं0 पटना 256) पटना, मंगलवार, 26 मार्च 2013

---

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

20 मार्च 2013

सं0 3/एच0-02/2012-सां0प्र0-4840—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-03/एच0-02/2012-सां0-16945 दिनांक 12.12.2012 द्वारा दिनांक 22.03.2013 (शुक्रवार) को बिहार दिवस के अवसर पर तथा दिनांक 29.03.2013 (शुक्रवार) को गुड फ्राइडे के अवसर पर राज्य में एन0आई0 ऐक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।

राज्य के हित में महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्वों एवं राजस्व संग्रहण का निष्पादन वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ही करना आवश्यक है। इस हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22.03.2013 (बिहार दिवस) एवं 29.03.2013 (गुड फ्राइडे) को राज्य के सभी कोषागारों को खुला रखने का आदेश दिया गया है। अतः राज्यहित में उपर्युक्त दोनों अवसरों पर पूर्व से एन0आई0 ऐक्ट के तहत घोषित अवकाश को सभी बैंकों के लिए रद्द किया जाता है। उक्त दोनों अवसरों पर राज्य स्थित सभी बैंक सामान्य कार्यदिवसों की तरह खुले रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**बशिष्ठ सिंह,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 256-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>